



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 841) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना

12 सितम्बर 2016

सं० 1774—भरत दास का मंदिर, ग्राम+पोस्ट+थाना—रोसड़ा, जिला—समस्तीपुर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 596 है। इस न्यास के संचालनार्थ समिति के गठन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा ने अपने पत्रांक 263/सी० दिनांक 22.07.2016 द्वारा ग्यारह व्यक्तियों की सूची भेजते हुए न्यास समिति के गठन की अनुशंसा की है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं 8 (क) के तहत प्रशासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए भरत दास का मंदिर, ग्राम+पोस्ट+थाना—रोसड़ा, जिला—समस्तीपुर की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “भरत दास का मंदिर, रोसड़ा (समस्तीपुर), न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, भरत दास का मंदिर, रोसड़ा (समस्तीपुर) न्यास समिति” होगा।
2. भरत दास का मंदिर, ग्राम+पोस्ट+थाना—रोसड़ा, जिला—समस्तीपुर तथा इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार भरत दास का मंदिर, ग्राम+पोस्ट+थाना—रोसड़ा, जिला—समस्तीपुर न्यास समिति में निहित होगा।
3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
4. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त के हस्ताक्षर से होगा।
5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण विहित

- प्रपत्र में किया जायेगा तथा आय-व्यय का विवरणी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को त्रैमासिक/छः मासिक/नौ मासिक/वार्षिक अगामी माह के प्रथम सप्ताह में भेज दिया करेंगे।
6. न्यास समिति न्यास के आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
 7. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायेगा। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।
 8. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि को न्यास समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
 9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त रखेगी।
 10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।
 11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।
 12. न्यास समिति की बैठक मन्दिर परिसर में प्रतिमाह आयोजित की जायेगी।
 13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
 14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
 15. न्यास समिति को न्यास की कोई सम्पत्ति बेचने, लीज पर देने या किसी प्रकार से अन्य संक्रमण का अधिकार नहीं होगा।
 16. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सभी आवश्यक वैधानिक कार्यवाई करेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	श्री राजेन्द्र प्रसाद सहनी, वार्ड सं0 10, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	अध्यक्ष,
(2)	श्री विजय कुमार सिंह, वार्ड सं0 12, रोसड़ा (समस्तीपुर),	—	सचिव,
(3)	श्री रंजन कुमार सिंह, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	उप सचिव,
(4)	श्री ओम प्रकाश जजोदिया, वार्ड सं0 13, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	कोषाध्यक्ष,
(5)	श्री मामराज अग्रवाल, वार्ड सं0 14, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	सदस्य,
(6)	श्री मोहन कुमार सिंह, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	सदस्य
(7)	श्री विश्वनाथ साह, वार्ड सं0 12, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	सदस्य
(8)	श्री परमानन्द सिंह, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	सदस्य
(9)	श्री शंभू पासवान, वार्ड सं0 12, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	सदस्य
(10)	श्री रामनारायण पासवान, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	सदस्य
(11)	श्री फुलेन्द्र कुमार आंसू, वार्ड सं0 15, रोसड़ा (समस्तीपुर)	—	सदस्य

यह अधिसूचना निर्गत तिथि से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षों का होगा।

आदेश से,
संजय कुमार,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 841-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>